

गोस्वामी तुलसीदास के काव्यों में समन्वय साधना

सिया राम मीणा ,

(व्याख्याता—हिन्दी) बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय , अलवर , (राज.) 301001

सार संक्षेप

तुलसीदास निश्चित रूप से समन्वयवादी थे, उन्होंने राम को ईश्वर माना और उनकी आजीवन आराधना की। उनके धार्मिक गतिशीलता का कारण जीवन की वास्तविकता को समझना तथा अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहना था। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ आक्रांत औं से प्रभावित थी। यह जबरन अपना धर्म भारतीय जनमानस पर धोप रही थी जिसके कारण तुलसीदास की समन्वय भावना का प्रखर रूप देखने को मिला। तुलसीदासजी का जन्म संवत् 1589 को उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदासजी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के महान भक्त, प्रबुद्ध कवि और दार्शनिक महाकवि तुलसीदास, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समन्वय स्थापित किया, समन्वय की साधना का उन्होंने निरन्तर आध्यात्मिक अभ्यास किया है जिसने आज तक भारतीय जनता को प्रभावित किया है। उनके विचार में, सांघर्दायिक या भाषाई विवाद तुच्छ या पाखंडी दिमाग की उपज थे और इसलिए उन्होंने हमेशा एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया। इस शोध पत्र में गोस्वामी तुलसीदास की लोकनायक के रूप में समन्वय साधन का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना :-

'समन्वय' शब्द के कई अर्थ हैं। मोटे तौर पर इसका उपयोग पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग एक विशिष्ट अर्थ में भी किया जाता है और वह है — 'विपक्ष को हटाकर विरोधी चीज़ों, चीज़ों या विचारों को समेटना।' जिसे तुलसी ने लिखा है। समय साहित्य में प्रवेश किया। समाज, धर्म, राजनीति, भक्ति, साहित्य और उस समय के लोगों के जीवन में कई परिस्थितियाँ एक—दूसरे के विरोध में खड़े होकर लोगों के जीवन को कठिन बना रही थीं। धर्म के क्षेत्र में शैव, वैष्णव और शाक्तों के रूप में विभिन्न संप्रदाय दिन—ब—दिन कट्टरता की ओर बढ़ रहे थे। सगुणोपसाक्ष जहां निर्गुण पथ को नीरस बताकर उसकी आलोचना कर रहे थे, वहाँ निर्गुणपंथी भी सगुण भक्ति का विरोध कर रहे थे। ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच चुनाव को लेकर जनता भ्रमित थी। सभी वैष्णव आचार्य शंकर के निर्गुण ब्रह्मवाद और माया के विरोधी थे, जबकि सभी अद्वैतवादी माधवाचार्य के द्वैतवाद के विरोधी थे। राजा और प्रजा के बीच, वेदों और अभ्यास के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही थी। पारिवारिक संबंधों और वर्णश्रमधर्म में असमानता थी। ऐसे समय में सभी साहित्यकार अपने—अपने स्तर पर इन परिस्थितियों से निपटने का प्रयास कर रहे थे। जायसी ने जहां भारतीय प्रेम और लोक कथाओं को फारसी मसनबी शैली में पिरोकर प्रेम का संदेश दिया, वहाँ कबीर ने भी हिंदू—मुस्लिम, ऊँच—नीच, अमीर—गरीब आदि के भेदों का विरोध कर समाज को समेटने का प्रयास किया। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है गोस्वामी तुलसीदास ने किया। उन्होंने इन सभी अंतर्विरोधों को कई भागों में दूर कर अपनी समकालिक दृष्टि का परिचय दिया और अपना निश्चित दर्शनिक दृष्टिकोण स्थापित किया जो मुख्य रूप से रामचरितमानस और विनय पत्रिका में देखा जाता है, इसीलिए आचार्य द्विवेदी ने उन्हें महात्मा बुद्ध के बाद सबसे महान लोकनायक साबित किया है। "लोक नायक ही समन्वय कर सकता है।"

तुलसीदास की समन्वय भावना :-

समन्वय शब्द सामान्यतः दो अर्थों में मैं लिया जाता है। अपने विस्तृत और व्यापक अर्थ में वह संयोग अथवा पारस्परिक संबंध के निर्वाह का घोतक है। जब हम सांख्य और वेदांत अथवा निर्गुण और सगुण के समन्वय की बात करते हैं। तब हमारा अभिप्राय होता है, इन दोनों विचार धाराओं में सामंजस्य की स्थापना। इन दोनों ही दृष्टियों में तुलसीदास समन्वयवादी है। समन्वय भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समय—समय पर इस देश में कितनी ही संस्कृतियों का आगमन हुआ और आगे बढ़ा। परंतु वह घुल मिल दृ कर एक हो गई। कितनी ही दार्शनिक धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साहित्यिक व सौंदर्य मूलक विचारधारा का विश्वास हुआ। किंतु उनकी परिणति संगम के रूप में हुई। यह समन्वय भावना का ही परिणाम है कि नास्तिक बुद्ध ने राम को बोधिसत्त्व मान लिया। और आस्तिक वैष्णवों ने बुद्ध के अवतार रूप में प्रतिष्ठा की।

अर्थ दृ काम और धर्म दृ

मोक्ष में प्रवृत्ति और निवृत्ति में साहित्य और जीवन में समन्वय स्थापित करने के विराट प्रयत्न किए गए। अनेकता में एकता की स्थापना की गई। धर्म दर्शन और समाज सुधार के क्षेत्र में गौतम बुद्ध लोकनायक थे। उनके द्वारा प्रतिष्ठित माध्यम प्रतिपदा त्याग और भोग के समन्वय का ही मार्ग है। लोकदर्शी तुलसी ने जनता के हृदय में धड़कन को पहचाना और रामचरितमानस के रूप में वह आदर्श प्रस्तुत किया है। जिसमें कवित्व और भक्ति दर्शन का अद्भुत समन्वय है। समन्वय सिद्धांत का व्यवस्थित निरूपण और कार्यान्वयन मदराम का वृक्ष नहीं है। वह प्रत्यक्ष अनुभव सूक्ष्म शिक्षण अन्वेषण और गहन अनुशीलन का सम्मिलित परिणाम है। जीवन स्वयं समझौता है। वे योग्यन की कामाशक्ति के शिकार भी हुए थे। और वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंचकर आत्माराम भी हो गए थे। उनकी समन्वय साधना बहुमुखी है।

द्वैत –अद्वैत :–

तुलसी का दार्शनिक समन्वयवाद अत्यंत विवाद का विषय रहा है। तुलसी के युग में वेदांत का प्रभुत्व था। उसके भीतर भी दो प्रकार के संघर्ष थे। पहला सभी वैष्णव आचार्य शंकर के निर्गुण ब्रह्माबाद और माया के विरोधी थे। दूसरा सभी अद्वैतवाद मध्य के द्वैतवाद के विरोधी थे। जहां अद्वैतवादियों और वैष्णव वेदान्तियों में मतभेद है वहां उन्होंने समन्वयवादी दृष्टि से काम लिया है। माया अविद्या है उसके अस्तित्व के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। सगुण ब्रह्म ही अवतार लेता है। एकमात्र निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है। जीव जगत और ईश्वर सब मिथ्या हैं केवल ज्ञान ही मुक्ति का साधन है।

निर्गुण और सगुण :–

निर्गुण और सगुण का विवाद दो क्षेत्रों में था। दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में और भक्ति के क्षेत्र में। शंकराचार्य निर्गुण ब्रह्मवाद को मानते थे। रामानुज और वल्लभ सगुण ब्रह्मस्मा को। तुलसी ने दोनों का समन्वय करते हुए राम को निर्गुण—सगुण कहा है। वस्तुतः राम एक है। वह निर्गुण और सगुण निराकार और साकार, व्यक्त और अव्यक्त है। निर्गुण राम ही भक्तों के प्रेम वश सगुण रूप में प्रकट होते हैं।

विद्या और अविद्या माया :–

अद्वैतवाद में माया और अविद्या पर्यायवाची है। वैष्णव आचार्य ऐसा नहीं मानते, वे माया को स्वभावत सगुण ब्रह्म की शक्ति मानते हैं। तुलसी की विद्या माया शंकराचार्य की माया से भिन्न है। क्योंकि वह जगत की रचना करती है, और भक्तों का कल्याण भी करती है। उसके अनुसार माया की भाव रूपा अभिन्न शक्ति है।

माया और प्रकृति :–

साख्य योग के अनुसार स्वतंत्र प्रकृति सृष्टि का कारण है। यह स्थुल जगत उसी का विकार है। अद्वैतवाद में माया को विच्छेप दृ शक्ति का कार्य माना गया। वैष्णवों ने पर ब्रह्मा और उसकी शक्ति माया द्वारा विश्व का निर्माण माना। सृष्टि प्रक्रिया में तुलसी ने वैष्णव दृ वेदांत की माया और साथियों की प्रकृति का समन्वय किया। उन्होंने प्रकृति को राम के अधीन और माया के अभिन्न मानकर दोनों में एक सूत्रता स्थापित की।

जगत की सत्यता और असत्यता :–

साख्य योग वैष्णव वेदांत आदि ने जगत की सत्यता स्वीकार की गई है। वेद विरोधी आत्मनादि और अनीश्वरवादी बौद्ध तुलसी की दृष्टि में सर्वथा तिरस्कृत है। जिसके विरुद्ध राम को विश्वरूप तथा जगत को राम का अंश बताकर उन्होंने जगत की सत्यता प्रतिपादित की है। क्योंकि राम से अभिन्न जगत मिथ्या नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में तुलसी ने द्वैतवाद और अद्वैतवादी मतों का समन्वय किया है। राम और जगत में तत्त्वतः अभेद है।

जीव का भेद –अभेद :–

तुलसी का जीव विषयक सिद्धांत वैष्णव दृ वेदांतियों के मतों का समन्वय है। तुलसी ने भेदवाद और आप अभेदवाद दोनों का समन्वय किया है। जीव ईश्वर का अंश मात्र है वह माया का स्वामी नहीं है। मुक्त होने पर ईश्वर का स्वरूप प्राप्त कर लेता है, किंतु ऐश्वर्य को नहीं।

कर्म दृ ज्ञान दृ भक्ति :–

जीव की पूर्णता इन तीनों में समन्वय में है। वही साधना सिद्धिदायिनी होती है जो साधक की पूरी सत्ता के साथ की जाए। सत्कर्म के बिना चित निर्मल नहीं हो सकता। और मूल से युक्त चित ज्ञान भक्ति का उदय असंभव है। अतः तुलसी ने तीनों के समन्वय पर बल दिया है।

जीवनमुक्ति और विदेहमुक्ति :-

अद्वैतवादियों के अनुसार आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार होने पर देहावसान के पूर्व ही आत्मा जीवउन्मुक्त हो जाती है। अधिकतर वैष्णव आचार्य जीव मुक्ति नहीं मानते। समन्वयवादी तुलसी को जीवनमुक्ति तथा विदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति के उक्त चारों प्रकार माननीय है। इसमें कोई विरोध नहीं है। ज्ञान और भक्ति का उदय ही मनोमुक्ति है।

तुलसीदास के दोहे :-

1. तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर
बसीकरन इक मंत्र है, परिहरु बचन कठोर
2. सचिव बैद गुरु तीनि जाँ, प्रिय बोलहिं भय आस
राज धर्म तन तीनि, कर होइ बेगिहीं नास
3. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान
तुलसी दया न छोड़िये, जब तक घट में प्राण
4. मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहुँ एक
पालइ पोषइ सकल, अंग तुलसी सहित विवेक
5. नामु राम को कलपतरु, कलि कल्यान निवासु
जो सिमरत भयो भाँग, ते तुलसी तुलसीदास
6. तुलसी साथी विपत्ति, के विद्या विनय विवेक
साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक
7. तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए
अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए
8. "कलि मल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सद्ग्रंथ।

दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहुपंथ॥"

इस प्रकार तुलसी अपनी समन्वय-साधना के कारण उस युग के लोकनायक थे। तुलसीदास में वह प्रगतिशीलता विद्यमान थी, जिससे वे परिस्थितियों के अनुकूल नवीन दृष्टिकोण अपना कर प्राचीनता का संस्कार कर सकें। इतनी विषमताओं में सम्य स्थापित करनेवाला पुरुष यदि लोकनायक नहीं होगा तो और कौन होगा?

भक्ति शील और सौन्दर्य के अवतार तुलसी के राम:- तुलसी के राम सर्वशक्तिमान, सौन्दर्य की मूर्ति एवं शील के अवतार हैं। वे मर्यादापुरुषोत्तम हैं।

"जब—जब होहि धरम के हानि। बाढ़हि असुर महा अभिमानी॥"

तब—तब धरि प्रभु मनुज सरीरा। हरहिं सकल सज्जन भव पीरा॥"

यानि जब भी समाज में कोई विघ्न पड़ता है और उसकी गति रुक जाती है तो एक महापुरुष का उदय होता है और गति का ठहराव समाप्त हो जाता है और आपसी सहयोग और समानता का वातावरण बन जाता है। राम राज्य भी इसी दिशा में एक कदम है। महाभारत के कृष्ण ने महाभारत का संचालन कर प्रतिकूल शक्तियों का नाश किया और ज्ञान, कर्म और शक्ति की एकता की स्थापना की। कालांतर में कर्मकांडों में हिंसा की प्रधानता और ज्ञान और भक्ति के द्वास के कारण बुद्ध ने अवतार लिया।

राम का लोकसंग्रही रूप और धार्मिक समन्वय :- तुलसी ने तत्कालीन बौद्ध सिद्धों और नाथ योगियों की चमत्कारी प्रथा का खंडन करके राम के लोक रूप की स्थापना की। राम के इस रूप में उन्होंने समन्वय स्थापित करने का भरपूर प्रयास

किया है। तत्कालीन समाज में तीन शैवों, वैष्णवों और पुष्टिमार्गियों में परस्पर विरोध था। इस कठिन समय में तुलसीदास ने वैष्णवों के धर्म को इतने व्यापक रूप में प्रस्तुत किया कि तीनों संप्रदायों को उसमें समानता का अनुभव हुआ। तुलसी के इस प्रयास की एक झलक मानस में देखी जा सकती है। राम कहते हैं—

“शिव द्रोही मम दास कहावा। सो नर मोहि सपनेहु नहिं भावा॥

संकर विमुख भगति चह मोरि। सो नारकीय मूढ़ मति थोरी॥”

इसी प्रकार उन्होंने वैष्णवों और शाक्त के सामंजस्य को भी दर्शाया है।

“नहिं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव बेद नहिं जाना।

भव—भव विभव पराभव कारिनि। विश्व विमोहनि स्वद्वस बिहारिनि॥”

पुष्टिमार्ग के ‘अनुग्रह’ का महत्त्व भी दर्शनीय है—

“सोइ जानइ जेहु देहु जनाई। जानत तुमहि होइ जाई॥

तुमरिहि कृपा तुमहि रघुनंदन। जानहि भगत—भगत उर चंदन॥”

यह तो हो गई तुलसीदास की तत्कालीन धार्मिक वातावरण एवं उसमें समन्वय स्थापित करने की बात। इसका दूसरा पक्ष भी था उस युग में सगुण और निर्गुण उपासना का विरोध। जहाँ सगुण धर्म में आचार—विचारों का महत्त्व तथा भक्ति पर बल दिया जाता था वहाँ दूसरी ओर निर्गुण संत साधकों ने धर्म को अत्यंत सस्ता बना दिया था। गाँव के कुँओं पर भी अद्वैतवाद की चर्चा होती थी; किंतु उनके ज्ञान की कोरी कथनी में भावगुद्धता एवं चिंतन का अभाव था। तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति के विरोध को मिटाकर वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी।

“अगुनहिं सगुनहिं कछु भेदा। कहहिं संत पुरान बुधवेदा॥

अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सी होई॥”

ज्ञान भी मान्य है किंतु भक्ति की अवहेलना करके नहीं। ठीक इसी प्रकार भक्ति का भी ज्ञान से विरोध नहीं है। दोनों में केवल दृष्टिकोण का थोड़ा—सा अंतर है। राम कहते हैं—

“सुनि मुनि तोहि कहौं सहरोसा। भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा॥

करौं सदा तिन्हीं कै रखवारी। जिमि बालकहि राख महतारी॥

गह सिसु बच्छ अनल अहिधाई। तह राखै जननी अरु गाई॥

प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता। प्रीति करे नहिं पाछिल बाता॥

मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी॥

जानहिं मोर बल निज बल नाहीं। दुह कहूं काम क्रोध रिपु आही॥

यह विचारि पंडित मोहि भजहि। पाएहू ग्यान भगति नहिं तजही॥”

हृदय की स्वच्छता पर बलः— तुलसीदास ने तत्कालीन धार्मिक संप्रदायवाद में बाह्याडंबर को प्रधानता न देते हुए हृदय की स्वच्छता पर बल दिया। तुलसी के राम ने संतों के जो लक्षण बताए हैं, उसके मूल में हृदय की स्वच्छता है।

“निर्मल मन सोइ जन मोहि पावा। मोहि न कपट—छ्ल—छिद्र सुहावा॥”

यह उस समय की धार्मिक स्थिति की मांग थी। तुलसीदास न केवल एक धार्मिक नेता थे बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने राम राज्य की कल्पना करके उस समय की मौजूदा राजनीतिक गड़बड़ी को दूर करने का यथासंभव प्रयास किया। मुसलमानों की राजनीति से हिंदू जाति पर हमले हो रहे थे। इन विषम परिस्थितियों में तुलसीदास ने खलविनाशक राम के पराक्रमी जीवन के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया। अत्याचार का घड़ा

अंत में भरने के बाद कैसे फूटता है, और इसके खिलाफ विद्रोह होता है और शांति स्थापित होती है, यह मन में देखा जाता है। रामराज्य के आदर्श की कल्पना कर तुलसी दास ने समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि राजा का आदर्श प्रजा का भरण-पोषण और दुष्टों का विनाश है।

समाज की गरिमा का प्रतिनिधित्वः— तुलसीदास ने सार्वजनिक जीवन के विभिन्न संबंधों के माध्यम से समाज की गरिमा का प्रतिनिधित्व किया है — ‘पिता—पुत्र’, ‘माँ—पुत्र’, ‘भाई—भाई’, ‘राजा—प्रजा’, ‘सास—बहू’, ‘पति—पत्नी’ आदि ने राम के महाकाव्य विस्तृत जीवन के कई प्रसंगों के माध्यम से उन सभी की गरिमा का वर्णन किया है। परिवर्तन युग की आवश्यकता थी और समय की आवश्यकता, पुराने रीति—रिवाजों और सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तुलसीदास ने इस विद्रोह को भली—भांति सुना, देखा और समझा। मानस में भी तुलसी ने कहा है—

“बरन धरम नहि आश्रम चारी। श्रुति विरोध रत सब नरनारी॥

द्विज श्रुति बंचक भूप प्रजासम। कोउ नाहिं मान निगम अनुसासन॥”

तुलसी का मानस स्वान्तः सुखाय होते हुए भी परजन—हिताय का संयोजक था। इसकी परिणति हमें संत के जीवन में देखने को मिलता है।

‘मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू॥’

तुलसीदास ने मानस में लोक और वेद, व्यवहार एवं शास्त्र का समन्वय प्रस्तुत किया है।

“चली सुगम कविता सरिता सो। राम विमल जस भरिता सो॥

सरजू नाम सूमंगल मूला। जाकि वेद मत मंजुस कूला॥”

चित्रकूट में भरत—राम मिलन के अवसर पर होने वाली सभा में तुलसी ने भरत के वचनों के द्वारा साधुमत, लोकमत, राजनीति एवं वेदमत के मध्य सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। पं. रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार—“ साधुमत का अनुसरण व्यक्तिगत साधन है, लोकमत लोकशासन के लिए है। इन दोनों का सामंजस्य तुलसी की धर्म भावना के भीतर है।” आध्यात्मिक क्षेत्र में समन्वयः—उस युग में ईश्वर प्राप्ति के साधनों की बहुलता थी। विभिन्न दर्शनों के मक्ड़जाल में जनता उलझी हुई थी। तुलसीदास ने द्वैत—अद्वैत, द्वैताद्वैत—तीनों सिद्धान्तों को भ्रम मानते हुए कहा—

“तुलसी दास परिहरै तीन भ्रम सो आपन पहिचानै।”

उनके ब्रह्म की मर्यादा विशिष्टाद्वैत से ही निर्मित है—

“सीया—राममय सब जग जानी। करहूँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥”

काव्य शैली में समन्वयः— तुलसी पूर्णतया समन्यवादी थे। उन्होंने काव्य की भाषा—शैली पर भी समन्वय की मोहर लगा दी। उन्होंने तत्कालीन कृष्ण—काव्य की ब्रज—भाषा और प्रेम—काव्यों की अवधी भाषा—दोनों का प्रयोग कर अपने समन्वयकारी दृष्टिकोण का परिचय दिया। तुलसी की रचना में उनके हृदय से सीधे निकले हुए भाव है, इसी कारण तुलसी का काव्य सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी ने रामकाव्य की रचना का उद्देश्य ही लोककल्याण बताया है; यथा—

“कीरति भनिति भूति भलि सोई।

सुरसरि सम सब कहँ हित होई॥”

भक्तिकाल में ब्रह्म के सगुण व निर्गुण स्वरूप को लेकर जो विवाद चला उसपर भारतीय दर्शन में बहुत गम्भीर चिन्तन—मनन हुआ है। शकराचार्य के अनुसार तत्त्व केवल एक है—‘ब्रह्म’। ये ब्रह्म को स्वरूपतः निर्गुण व निराकार मानते हैं जबकि वल्लभाचार्य ने सगुण ब्रह्म को पारमार्थिक सत्य माना है लेकिन तुलसीदास के अनुसार राम के दोनों रूप—निर्गुण और सगुण परमार्थतः सत्य हैं।

“अगुन सगुन दुई ब्रह्म सरूप।

अकथ अगाथ अनादि अनूपा।।”

तुलसीदास के अनुसार निर्गुण और सगुण में कोई तात्त्विक भेद नहीं है, केवल वेश का अन्तर है। दोनों स्वरूपों की अभेदता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दृष्टान्त भी दिया है—

‘एक दारूगत देखिए एकू।

पावक जुग सम ब्रह्म विवेकू ॥’

अर्थात् अग्नि के दो रूप हैं, एक अव्यक्त और एक व्यक्त। इसका दारूगत अव्यक्त रूप ही व्यक्त होने पर दृश्यमान हो जाता है। उसी प्रकार ईश्वर का भी जो निर्गुण व निराकार रूप है, जो दृष्टव्य नहीं है, वही प्रकट होने पर सगुण व साकार रूप में दिखाई देने लगता है—

“अगुन अरूप अलख अज जोई।

भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥”

और तुलसी के राम उसी निर्गुण भगवान के सगुण, साकार और अवतार हैं। हालांकि, तुलसीदास के संबंध में यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने सगुण की पूजा को निर्गुण से अधिक श्रेष्ठ माना है क्योंकि उनकी राय के अनुसार निर्गुणोपासना की पूजा केवल योगियों और ज्ञानियों तक ही सीमित है, जबकि सभी मनुष्य इसके हकदार हैं। सगुणोपासना की पूजा करने के लिए। वह एक सुरसारी की तरह है, जो सभी के लिए फायदेमंद है। लेकिन साथ ही उन्होंने जिस तरह से निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार, अव्यक्त और व्यवत, अंत्यमी और बाहरी, गुणतीत और गुणश्रय को एक साथ दिखाकर भक्ति के क्षेत्र में अपने राम को दिखाया है, वह अद्भुत है।

इसी के चलते तुलसी ने राम की कथा शिव—मुख से कहलवाई। यही नहीं उन्होंने शिव के मुख से राम की प्रशंसा भी करवाई है वहीं दूसरी और शिव के ही अंश रूप हनुमान के द्वारा राम की भक्ति तुलसी ने करवाई है तो राम के द्वारा भी जगह—जगह शिव की भक्ति व आराधना करवाई है और राम के मुख से भी कहलवाया है—

“सिव द्रोही मम दास कहावा।

सो नर सपनेहुं मोहि नहिं पावा ॥”

इस प्रकार तुलसी ने राम और शिव का परस्पर आत्मीय संबंध अपने साहित्य में निरूपित किया है। यद्यपि तुलसी मूलतः राम भक्त हैं किन्तु उन्होंने कहीं भी राम को शिव से श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा नहीं की है। दोनों को समान महत्व दिया है। लंका प्रयाण के समय सागर पर सेतु-बंधन के पश्चात् शिव की आराधना व शिवलिंग की स्थापना, ‘रामचरितमानस’ में राम कथा से पूर्व शिव—कथा, ‘पार्वती—मंगल’ की स्वतंत्र रचना और ‘विन्यपत्रिका’ में 12 पदों में शिव की वंदना आदि इनके इसी प्रयास का हिस्सा है।

अपने इस समन्वय के प्रयास में तुलसी ने ज्ञान व भक्ति के अन्तर को भी पाटने का प्रयास किया है। वैष्णव आचार्य भक्ति को श्रेष्ठ मानकर चल रहे थे जबकि सांख्य योग में ज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। अतः तुलसी ने दोनों का समन्वय करते हुए विरति—विवेक संयुक्त भक्ति और ज्ञानी भक्ति को श्रेष्ठ बतलाया है—

“श्रुति सम्मत हरि भगति पंथ संजुत विरति विवेक ॥”

यद्यपि तुलसी ने ज्ञान मार्ग को तलवार की धार के समान तीक्ष्ण और दुरुह भी बताया है लेकिन साथ ही वे यह भी कहते हैं कि साध्य की दृष्टि से ज्ञान भक्ति में कोई अन्तर नहीं है—

“भगतिहिं ग्यानहिं नहिं कछु भेदा।

उभय हरहिं भव सम्भव खेदा ॥”

इसलिए वे केवल भक्ति या कोरे ज्ञान की अपेक्षा भक्ति समन्वित ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। इस सबके अतिरिक्त तुलसीकालीन शासन व्यवस्था भी कई प्रकार के अन्तर्विरोधों से ग्रस्त हो चुकी थी। मुगल शासकों का असली उद्देश्य प्रजा—पालन और प्रजा—रंजन न होकर अपने साम्राज्य की स्थापना, निजी योग क्षेत्र और भोग विलास ही था और इसके लिए जनता की मेहनत की कमाई खर्च की जा रही थी इसलिए प्रजा भी असंतुष्ट होकर अपने मन मुताबिक रास्ते पर चलने के लिए बाध्य थी। अर्थात् राजा और प्रजा के बीच की दूरी निरन्तर बढ़ती जा रही थी जो कि समाज के लिए बहुत खेदजनक बात थी। तुलसी ने ‘रामचरितमानस’ के उत्तर कांड में कलियुग वर्णन के माध्यम से इसी स्थिति का चित्रण किया है और मात्र चित्रण ही नहीं किया है बल्कि इस स्थिति को सुधारने का, इनके फासले को कम करने का प्रयास भी किया है। ‘रामराज्य’ के रूप में एक आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना अपने साहित्य के माध्यम से करते हुए तुलसी बताते हैं कि किसी भी देश और समाज की सुख—समृद्धि के लिए शासक व जनता का समन्वित प्रयास अपेक्षित है। उनके अनुसार एक शासक या कहें कि अच्छे शासक को मुख की भाँति होना चाहिए जो समस्त शरीर रूपी प्रजा का पालन—पोषण भली प्रकार से करे—

“मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कौ एक।

पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥”

यद्यपि देखा जाए तो तुलसी दास वर्णश्रम धर्म के कट्टर समर्थक हैं और उन्होंने न केवल अपने विभिन्न कार्यों में कलियुग का वर्णन करते हुए इसके पतन पर खेद व्यक्त किया है—

“बरन धर्म नहिं आश्रम चारी।

श्रुति विरोध रत सब नर नारी ॥”

बल्कि धर्म—निरूपण के प्रसंगों में उनके पालन पर भी बल दिया है। परन्तु उनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं है। उनका लक्ष्य लोक कल्याण है और इसीलिए वे उच्चतम वर्ण ब्राह्मण और निम्नतम वर्ण शूद्र, दोनों को भक्ति का समान अधिकार दिया है फिर वाहे वह शबरी के बेर खानें का प्रसंग हो या केवट व निषाद के साथ राम, भरत व गुरु वशिष्ठ की भेंट का प्रसंग। क्षत्रिय श्रेष्ठ भरत व ब्राह्मण रत्न वशिष्ठ के द्वारा निषाद व केवट को प्रेमपूर्वक गले लगाने की बात तुलसी ने कही है—

‘प्रेम पुलकि केवट कहि नामू। कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू॥

रामसखा रिषि बरबस भेंटा। जनु महि लुटत सनेह समेटा ॥”

कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसी ने वर्णश्रम धर्म के समर्थक होकर व उसे समाज के सुचारू संचालन के लिए अनिवार्य मानते हुए भी मानव धर्म को ही अधिक महत्त्व देकर समाज के वर्णभेद के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। ईश्वर में पूरी आस्था और मनुष्य का पूरा सम्मान, ये दोनों दृष्टियाँ तुलसी में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं—

“सिया—राममय सब जग जानी। करहुं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥”

उपरोक्त पंक्ति इनके इसी गहरे आत्मविश्वास की सूचक है। जहाँ ईश्वर और मनुष्य दोनों की एक साथ प्रतिष्ठा हो। ‘सिया—राम’ यदि उनकी भक्ति के लिए आश्रय स्थल हैं तो ‘सब—जग’ उनके रचना—कर्म के लिए। अनुभूति और अभिव्यक्ति का संश्लिष्ट रूप रचना में, वस्तुतः मानस में प्रत्याशित है वह ईश्वर और मनुष्य की इस एकरूपता में से निकलता है। एक स्तर पर ईश्वर और मनुष्य का समन्वित रूप तुलसी के राम दशरथ पुत्र के साथ साथ परब्रह्म परमात्मा विष्णु के अवतार हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना, मानव रक्षा व असुर संहार के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है—

“विप्र धेनु, सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार ॥”

उपसंहार :—

तुलसीदास मूलतः समन्वयवादी थे। उन्होंने उपर्युक्त क्षेत्रों के अलावा अन्य बहुत से क्षेत्र में समन्वय स्थापित किया। इस प्रकार अपने युग, परिस्थितियों की माँगों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने साहित्य में भक्ति, धर्म, भाषा, साहित्य, पारिवारिक जीवन, समाज आदि सभी क्षेत्रों में व्याप्त संघर्ष और वैमनस्य को दूर करने के लिए जो प्रयास किए हैं। वह अतुलनीय है। और इस प्रयास से उन्होंने भारतीय जनता के दिल में, साहित्य में जो मुकाम हासिल किया है, वह कोई और लेखक आज तक नहीं कर पाया। इन सबके अलावा जहाँ—जहाँ तुलसी को सांस्कृतिक क्षेत्र में विरोध की झलक मिली है, उन्होंने उसे दबाने की कोशिश की है। यद्यपि भारतीय संस्कृति अपने आप में समन्वयवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। समय—समय पर इस देश में अनेक संस्कृतियाँ आईं और उभरीं, लेकिन वे आपस में मिल कर एक हो गईं। कितनी दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और सौंदर्यवादी विचारधाराओं का विकास हुआ, लेकिन वे एक संगम के रूप में परिणत हुईं। लेकिन फिर भी तुलसी ने उसमें मौजूद कुछ विरोधी तत्वों को समेटने की कोशिश की है, जैसे कि जीवन, राज्य वर्ग की संस्कृति, आम लोगों और कोल—किरातों को तुलसी ने उसी तरह चित्रित किया है, लेकिन में राम के संबंध में, उनके पास यह सब है। जीवन शैली को एकीकृत किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात — हिंदू संस्कृति के साथ मुस्लिम संस्कृति का एकीकरण। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के कट्टर अनुयायी होने के बावजूद तुलसीदास ने अपने दृष्टिकोण को उदार रखते हुए अपनी कविता को आगे बढ़ाया है। और इसीलिए राम की सेवा में भेजी गई ‘विनय पत्रिका’ का विधान मुगल बादशाह को भेजी गई प्रार्थना के अनुसार किया गया है। इसके साथ ही अरबी—फारसी की शब्दावली का भी भरपूर उपयोग किया गया है।

संदर्भ सूची :—

1. हिन्दी साहित्य की भूमिका — आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, संस्करण—2010, पृष्ठ सं.— 98

2. रामचरितमानस, बालकाण्ड, 23 / 1

3. वही, 23 / 2
4. वही, 116 / 2
5. वही, उत्तरकाण्ड, 117 / 2
6. हिन्दी साहित्य का विकास – आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, मलिक एण्ड कम्पनी प्रकाशन, संस्करण–2009, पृष्ठ सं.– 115
7. रामचरितमानस, लंकाकाण्ड, 2 / 8
8. वही, उत्तरकांड, दोहा सं.–100
9. वही, उत्तरकांड, 115 / 13
10. दोहावली, 522
11. दोहावली, 523
12. रामचरितमानस, उत्तरकांड, 98 / 1–2
13. रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, 243 / 3
14. वही, बालकाण्ड, 8 / 1–2
15. वही, बालकाण्ड, दोहा सं.– 192
16. हिन्दी साहित्य का विकास – आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, मलिक एण्ड कम्पनी प्रकाशन, संस्करण–2009, पृष्ठ सं.–113
17. हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ–डॉ.जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल–पृ.सं. 223
18. हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ–डॉ.जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल–पृ.सं. 227